

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

8 जून 2021

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया के 16 छात्र बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए क्वालिफाई

आवासीय कोचिंग अकादमी (आरसीए), जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) में कोचिंग और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सोलह छात्रों ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) 64<sup>वीं</sup> संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) पास की है। इनमें 6 लड़कियां हैं।

जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने सफल उम्मीदवारों और जामिया बिरादरी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, आरसीए, जामिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

“यह विश्वविद्यालय के लिए बहुत सम्मान की बात है कि महामारी के दौर में भी आरसीए इतने सारे सिविल सेवकों को तैयार कर सका है। यह विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित सभी सार्वजनिक कोचिंग केंद्रों के मुकाबले सबसे अधिक संख्या है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें और सुधार होगा”, कुलपति ने कहा।

चयनित छात्रों को बिहार में एसडीएम, डीएसपी, राजस्व अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग आदि के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

63<sup>वीं</sup> बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) में आरसीए जामिइ के 12 छात्रों का पिछले साल भी चयन किया गया था।

हाल ही में, आरसीए जामिइ के 4 छात्रों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के लिए चुना गया था, जिसमें संचिता शर्मा भी शामिल थीं, जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया था।

गौरतलब है कि आरसीए, जेएमआई के 43 छात्रों ने यूपीएससी- सिविल सर्विसेज मेन्स परीक्षा -2020 को पास किया है। ये छात्र अब साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होंगे, जो जुलाई/अगस्त, 2021 में आयोजित होने की उम्मीद है।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया